



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2008/माघ 4, 1929

No. 107]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2008/MAGHA 4, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2008

क्र.आ. 144(अ).— यतः, महाराष्ट्र राज्य के मै. महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कम्पनी लि. ने महाराष्ट्र राज्य में मिहान, नागपुर जिले में एक बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 29 मई, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 845(अ) द्वारा महाराष्ट्र राज्य में मिहान, नागपुर जिले में 1511.51 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, महाराष्ट्र राज्य में मिहान, नागपुर जिले में 66.90 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

| क्र. सं. | गाँव का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|----------|-------------|----------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | शिवानगाँव | 35/7(पी) | 0.30 |
| 2. | | 40/1 | 0.75 |
| 3. | | 40/2 | 0.50 |
| 4. | | 42/1 | 1.01 |
| 5. | | 42/2 | 2.00 |
| 6. | | 43 | 0.23 |
| 7. | | 45 | 3.97 |
| 8. | | 48/1 | 1.26 |
| 9. | | 49/1 | 8.04 |
| 10. | | 49/2 | 0.40 |
| 11. | | 50/1 | 2.01 |
| 12. | | 50/2 | 2.40 |
| 13. | | 52 | 1.30 |
| 14. | | 56/3(पी) | 2.10 |
| 15. | | 56/4 | 0.77 |
| 16. | | 56/5(पी) | 0.35 |
| 17. | | 56/6(पी) | 0.16 |
| 18. | | 57/2 | 2.05 |
| 19. | | 57/3 | 2.71 |
| 20. | | 57/4 | 0.40 |
| 21. | | 57/5 | 0.40 |
| 22. | | 57/6 | 0.40 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----------|---------------------------|------|
| 23. | शिवानगाँव | 57/7 | 0.40 |
| 24. | | 58/1 | 0.80 |
| 25. | | 58/2(पी) | 0.60 |
| 26. | | 60(पी) | 1.40 |
| 27. | | 46/347-348जी | 3.47 |
| 28. | | 345/34(पी) | 2.00 |
| 29. | | 346/34 | 2.72 |
| 30. | | 346/46जीएच, 348/48जीएच | 2.07 |
| 31. | | 48/2 | 0.84 |
| 32. | तेलहरा | 151(पी) | 1.59 |
| 33. | | 152(पी) | 1.05 |
| 34. | | 153(पी) | 0.27 |
| 35. | | 154(पी) | 0.57 |
| 36. | | 155(पी) | 0.48 |
| 37. | कल्कुही | 99 | 0.02 |
| 38. | | 100/2 | 0.26 |
| 39. | | 114 | 1.10 |
| 40. | | 158/1, 158/2, 158/3 | 0.27 |
| 41. | | 159 | 1.04 |
| 42. | | 160 | 0.81 |
| 43. | | 181 | 0.60 |
| 44. | | 182 | 1.12 |
| 45. | | 183 | 0.19 |
| 46. | | 184 | 0.10 |
| 47. | | 185/1 | 1.05 |
| 48. | | 185/2 | 1.61 |
| 49. | | 185/3 | 0.27 |
| 50. | | 192 | 0.71 |
| 51. | | 194 | 0.28 |
| 52. | | 195 | 0.14 |
| 53. | | 196 | 0.36 |
| 54. | | 198 | 1.12 |
| 55. | | 199 | 0.75 |
| 56. | | 200/1, 200/2 | 1.40 |
| 57. | | 202 | 0.32 |
| 58. | शिवानगाँव | 37 | 0.06 |
| 59. | | 39 | 0.06 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-------|-----------|--------|----------------|
| 60. | शिवानगाँव | 41 | 0.45 |
| 61. | | 44 | 0.32 |
| 62. | | 47 | 0.10 |
| 63. | | 51 | 0.32 |
| 64. | | 36(पी) | 0.30 |
| कुल : | | | 66.90 हेक्टेयर |

[फा. सं. 2/31/2005-ईपीजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2008

S.O. 144(E).—Whereas M/s. Maharashtra Airport Development Company Limited in the State of Maharashtra, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a multi-product Special Economic Zone at Mihan, District Nagpur in the State of Maharashtra;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, has notified the total area of 1511.51 hectares at Mihan, District Nagpur in the State of Maharashtra, as Special Economic Zone in the Ministry of Commerce and Industry Notification No. S.O. 845 (E) dated 29th May, 2007;

And whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 66.90 hectares at Mihan, District Nagpur in the State of Maharashtra, comprising of the survey numbers and the area given below in the Table, to be included as a part of that Special Economic Zone, namely :—

TABLE

| Sl. No. | Name of Village | Survey No. | Area (in hectares) |
|---------|-----------------|------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Shiwangaon | 35/7(P) | 0.30 |
| 2. | | 40/1 | 0.75 |
| 3. | | 40/2 | 0.50 |
| 4. | | 42/1 | 1.01 |
| 5. | | 42/2 | 2.00 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (1) | (2) | (3) | (4) | |
|-----|------------|-------------|------|------------------------------|---------|---------------|------|------|
| 6. | Shiwangaon | 43 | 0.23 | 37. | Kalkuhi | 99 | 0.02 | |
| 7. | | 45 | 3.97 | 38. | | 100/2 | 0.26 | |
| 8. | | 48/1 | 1.26 | 39. | | 114 | 1.10 | |
| 9. | | 49/1 | 8.04 | 40. | | 158/1, 158/2, | | |
| 10. | | 49/2 | 0.40 | | | 158/3 | 0.27 | |
| 11. | | 50/1 | 2.01 | 41. | | 159 | 1.04 | |
| 12. | | 50/2 | 2.40 | 42. | | 160 | 0.81 | |
| 13. | | 52 | 1.30 | 43. | | 181 | 0.60 | |
| 14. | | 56/3(P) | 2.10 | 44. | | 182 | 1.12 | |
| 15. | | 56/4 | 0.77 | 45. | | 183 | 0.19 | |
| 16. | | 56/5(P) | 0.35 | 46. | | 184 | 0.10 | |
| 17. | | 56/6(P) | 0.16 | 47. | | 185/1 | 1.05 | |
| 18. | | 57/2 | 2.05 | 48. | | 185/2 | 1.61 | |
| 19. | | 57/3 | 2.71 | 49. | | 185/3 | 0.27 | |
| 20. | | 57/4 | 0.40 | 50. | | 192 | 0.71 | |
| 21. | | 57/5 | 0.40 | 51. | | 194 | 0.28 | |
| 22. | | 57/6 | 0.40 | 52. | | 195 | 0.14 | |
| 23. | | 57/7 | 0.40 | 53. | | 196 | 0.36 | |
| 24. | | 58/1 | 0.80 | 54. | | 198 | 1.12 | |
| 25. | | 58/2(P) | 0.60 | 55. | | 199 | 0.75 | |
| 26. | | 60(P) | 1.40 | 56. | | 200/1, 200/2 | 1.40 | |
| 27. | | 46/347-348G | 3.47 | 57. | | 202 | 0.32 | |
| 28. | | 345/34(P) | 2.00 | 58. | | Shiwangaon | 37 | 0.06 |
| 29. | | 346/34 | 2.72 | 59. | | | 39 | 0.06 |
| 30. | | 346/46GH, | | 60. | | | 41 | 0.45 |
| | 348/48GH | 2.07 | 61. | 44 | 0.32 | | | |
| 31. | 48/2 | 0.84 | 62. | 47 | 0.10 | | | |
| 32. | Telhara | 151(P) | 1.59 | 63. | 51 | | 0.32 | |
| 33. | | 152(P) | 1.05 | 64. | 36(P) | | 0.30 | |
| 34. | | 153(P) | 0.27 | | | | | |
| 35. | | 154(P) | 0.57 | | | | | |
| 36. | | 155(P) | 0.48 | | | | | |
| | | | | Total: 66.90 hectares | | | | |
| | | | | [F.No. 2/31/2005-EPZ] | | | | |
| | | | | ANIL MUKIM, Jt. Secy. | | | | |